

बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार पटना।

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या :- 26 / 15-16

(1) परिचयात्मक :-

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम — अंचल कार्यालय सदर, छपरा।

(ख) अंकेक्षण का लेखावधि — वर्ष 2010-11 एवं 2011-12

(ग) प्रशासी विभाग का नाम — राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा, बिहार, पटना।

(घ) अंकेक्षित अवधि के नियंत्री

पदा० का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल —

1. श्री लोकेश कुमार सिंह, आई० ए० एस (1.4.2010 से 7.7.2010 तक)
2. श्री पंकज कुमार पाल, आई० ए० एस० (7.07.2010 से 28.09.2010) तक।
3. श्री कुलदीप नारायण, आई० ए० एस० (28.09.2010 से 12.02.11) तक।
4. श्री विनय कुमार आई० ए० एस० (12.02.2011 से 31.3.2012) तक।

(ङ) अंकेक्षित अवधि के लेखा प्रभारी , पदाधिकारी एवं कर्मचारियों का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल —

- (1) डा० मुन्नी दास अंचलाधिकारी 15.11.09 से 03.04.2010 तक।
- (2) श्री अरुण कुमार गुप्ता, अंचलाधिकारी 04.04.2010 से 31.03.2012 तक।
- (3) श्री चुन्नीलाल साह (रोकड़पाल) 01.04.2010 से 31.03.2012 तक।

(4) मो० मोहेमुदीन खाँ, प्रधान लिपिक (01.04.2010 से 31.03.12) तक।

(च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले

पदा०/कर्म० का नाम एवं पदनाम —

1. श्री रघुनाथ तिवारी अंचलाधिकारी
2. श्री विजय कुमार सिंह अंचलाधिकारी
3. मो० जहरुद्दीन, रोकड़पाल
4. श्री रामबाबू सिंह, प्रधानलिपिक

(छ) अंकेक्षकों के नाम —

1. श्री श्रवण कुमार अग्रवाल, व० अं०— 1
2. श्री प्रदीप कुमार साह, व० अं० —2
3. श्री प्रवीण कुमार झा, वरीय अंकेक्षक—2
4. श्री अवध किशोर सिंह, व० अं०— 2
5. श्री अशोक कुमार ओझा, व० अं० — 2

(ज) अंकेक्षण प्रारंभण तिथि — 31.10.2013 पूणः प्रारम्भ 10.02.15

(झ) अंकेक्षण समाप्ति तिथि — 20.6.2015

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस —

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :—

परिशिष्ट 'क' पर अंकित हैं।

(2) अंकेक्षण का क्षेत्र —

(i) अंकेक्षण का प्रकार — सामान्य अंकेक्षण।

- (ii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग के आदेश संख्या एवं तिथि – अंचल कार्यालय सदर छपरा के लेखा का अंकेक्षण वित्त (अंकेक्षण) विभाग के ज्ञापांक 3286 दिनांक 15.02.60 के विभागीय आदेशानुसार अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर सम्पन्न किया गया।
- (iii) कार्यालय का कार्यक्षेत्र – राजस्व संग्रह करना।
- (iv) वित्तीय स्रोत – आवंटन विवरणी परिशिष्ट 'ख' पर अंकित हैं।
- (v) कोषागार अभिलेख से सत्यापन की स्थिति :- अंकेक्षित अवधि में कोषागार से निकासी एवं जमा की गयी राशि का सत्यापन छपरा समाहरणालय स्थित कोषागार के अभिलेखों एवं कम्प्यूटर में दर्ज प्रविष्टि से शत प्रतिशत किया गया एवं सही पाया गया।
- (vi) महालेखाकार के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति – अंकेक्षण में पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदन की माँग की गयी। परन्तु अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः पूर्व के लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की समीक्षा नहीं की जा सकी।
- (vii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति – पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदन की माँग की गयी परन्तु अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः पूर्व के लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की समीक्षा नहीं की जा सकी।

(3) वित्तीय समीक्षा :-

- (1) आवंटन की स्थिति – आवंटन से अधिक की निकासी नहीं की गयी थी।
- (2) रोकड़ पंजी में संवरण शेष के नकद राशि का भौतिक सत्यापन की स्थिति – सामान्य रोकड़ पुस्त के संवरण शेष का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया। जो वित्त (अंकेक्षण)

विभागीय ज्ञापांक -503 दिनांक - 29.1.76 के विपरित हैं। इस ओर प्रशासी विभाग का ध्यान आकृष्ट किया जाता हैं।

(3) रोकड़ पुस्त के संवरण शेष की स्थिति :- (31.10.13) अंकक्षण प्रारम्भ तिथि -

नकद राशि एकल ताला	172104.15
बैंक खाता में कुल राशि यूनियन बैंक आफ इंडिया छपरा खाता सं० — 393901010011016	1289485.90
अग्रिम की राशि	16651206.00
असमायोजित अभिश्रव	2286561.57
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कृषि विकास शाखा खाता सं० 39021	1924.00
	20401281.62

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बैंक स्टेटमेन्ट में दिनांक 31.10.2013 को रोकड़ का संवरण शेष 1289405.90 पाया गया। इस प्रकार रू० 80.00 (1289485.90 - 1289405.90) कम पाया गया।

(4) हल्का से संबंधित माँग एवं वसूली की विवरणी - परिशिष्ट 'ग' पर द्रष्टव्य के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि वर्ष 10-11 में साक्ष्य के विरुद्ध 49.62 प्रति० एवं वर्ष 2011-12 में 41.20 प्रति० मान राजस्व संग्रहण पाया गया जो अत्यन्त कम एवं राजस्व संग्रहण में उदासीनता का घोटक हैं। प्राप्त पत्र कारवाई हेतु प्रशासी विभाग का ध्यान आकृष्ट किया जाता हैं।

(5) सैरात से संबंधित वसूली एवं जमा की विवरणी – परिशिष्ट 'घ' पर द्रष्टव्य हैं।

(4) अंकेक्षित कार्यालय के स्वीकृत, कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण – परिशिष्ट 'ड' पर द्रष्टव्य हैं।

भाग-2

(5) अनियमित वेतन वृद्धि के रूप में भुगतान की गयी राशि रू0 5823.00 वसूली योग्य :-

मो0 मनीरुल्ला खाँ सहायक के सेवापुस्त के जाँच में पाया गया कि ये कम्प्यूटर जाँच परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 3/एम-89/2010-1609 दिनांक 29.05.2011 के अनुसार निम्नवर्गीय/उच्चवर्गीय लिपिक कोटि के कर्मियों को कम्प्यूटर जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक हैं। उत्तीर्ण नहीं होने की स्थिति में जुलाई 2011 से वेतन वृद्धि देय नहीं हैं। किन्तु श्री खाँ को परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने की स्थिति में भी वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया है, जो नियमानुकूल नहीं हैं। सेवा पुस्त में वेतन वृद्धि निम्न प्रकार से अंकित पाया गया।

	वेतन	ग्रेड पे	
1.7.10	9720	2800	12520
1.7.11	10100	2800	12900
1.7.12	10490	2800	13290

वेतन वृद्धि के रूप में भुगतान की गयी राशि निम्नवत् हैं।

भुगतान की गयी राशि					भुगतेय राशि						
अवधि	वेतन	म0 भत्ता	म0 किराया भत्ता	योग	वेतन	म0 भत्ता	म0 किराया भत्ता	योग	अन्तर	माह अन्तर	वसूली योग राशि
जुलाई 2011 से दिसम्बर 2011	12900	7482	1290	21672	12520	7262	1252	21034	638	6X638	3828
जनवरी 2012 से मार्च 2012	12900	8385	1290	22575	12520	8138	1252	21910	665	3X665	1995
										कुल	5823

अनियमित वेतन वृद्धि के रूप में प्राप्त की गयी राशि रू0 5823.00 वसूल कर उचित शीर्ष अर्न्तगत कोषागार में जमा किया जाय। उल्लेखनीय है कि राशि की गणना जुलाई 2011 से मार्च 2012 तक की गयी हैं। इसके बाद की अवधि की गणना कार्यालय द्वारा स्वयं की जाय एवं सम्बन्धित दोषी व्यक्ति से राशि वसूल कर उचित शीर्ष कोषागार में जमा की जाय एवं फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को सूचित किया जाय।

(6) भू-लगान की राशि रू0 100.00 वसूली योग्य :-

हल्का नं0-5 के लगान रसीद वही एवं पंजी 3 ए के मिलान एवं सत्यापन में पाया गया कि रैयत श्री दीपक कुमार पाण्डे वो मृत्युनजंय कुमार पाण्डे थाना नं0 536 जमावंदी नं0 321 से राजस्व रसीद सं0 274525 दिनांक 5.03.2012 द्वारा वर्ष 2011-12 के लिये कुल रू0 140.00 प्राप्त किया गया था, किन्तु पंजी 3 ए में केवल रू0 40.00 की ही प्रविष्टि पायी

गयी। इस प्रकार (रु0 140.00 – रु0 40.00) = रु0 100.00 की कम प्रविष्टि पायी गयी एवं तदनुसार राशि अंचल में जमा की गयी। इस प्रकार रु0 100.00 सम्बन्धित कर्मचारी से वसूल कर उचित शीर्ष अर्न्तगत कोषागार में जमा किया जाय एवं फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को अवगत कराया जाय।

(7) आयकर के रूप में रु0 152688.10 की कटौती नहीं किये जाने के कारण राजस्व की क्षति :-

शीर्ष 2029 भू-राजस्व के वेतन भुगतान पंजी वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के जाँच में पाया गया कि कुछ सेवा निवृत्त कर्मचारियों को वेतन के बकाया के रूप में विभिन्न विपत्रों के द्वारा एक बड़ी राशि का भुगतान किया गया था। नियमानुसार बकाया राशि के भुगतान पर 10 % दस प्रतिशत की दर से आयकर की कटौती की जानी चाहिये थी। लेकिन कार्यालय द्वारा बकाया के भुगतान पर किसी प्रकार की आयकर की कटौती नहीं की गयी थी। विवरण निम्न हैं।

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम पदनाम	विपत्र सं0 वर्ष जिससे भुगतान किया गया	तिथि	राशि	कुल राशि	10 प्रतिशत कटौती की राशि जो नहीं की गयी
1	श्री जगदीश राम राजस्व कर्मचारी	66 / 10-11 70 / 10-11 69 / 10-11	10.3.11 21.3.11 21.3.11	69900.00 95779.00 33960.00	199639.00	19963.90

2	श्री रघुनन्दन प्रसाद	27 / 11-12	12.7.11	223671.00	393736.00	39373.60
	श्रीवास्तव राजस्व	28 / 11-12	14.7.11	156631.00		
	कर्मचारी	29 / 11-12	12.7.11	14034.00		
3	श्री जगदीश राम	28 / 11-12	14.7.11	422824.00	422824.00	42282.00
	सेवानिवृत्त राजस्व					
	कर्मचारी					
4	श्री अर्शफी साह	29 / 11-12	12.7.11	166699.00	510682.00	51068.00
	राजस्व कर्मचारी	57 / 11-12	13.12.11	314916.00		
		56 / 11-12	13.12.11	29067.00		
					1526881.00	152688.10

इस प्रकार कार्यालय द्वारा रू0 1526881.00 का बकाया वेतन के रूप में भुगतान किया गया था जिसपर 10 प्रतिशत आयकर रू0 152688.10 काटा जाना चाहिये था जिसे नहीं काटा गया। इस प्रकार आयकर के प्रावधान के अनुसार संबंधित दोषी व्यक्ति से राशि वसूल करते हुये उनपर उचित कारवाई अपेक्षित हैं। फलाफल से वित्त अंकेक्षण विभाग बिहार पटना को अवगत कराया जाय।

(8) आयकर मद में रू0 43268.00 की कटौती नहीं किये जाने के फलस्वरूप राजस्व की क्षति :-

सदर अंचल कार्यालय द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध कराये गये वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के आयकर विवरणी में संलग्न वेतन वितरणी का सत्यापन वेतन पंजी से करने पर

पाया गया कि विभिन्न कर्मचारियों द्वारा उक्त अवधि में बकाया वेतन, बकाया मँहगाई भत्ता का भुगतान प्राप्त किया गया था, लेकिन वेतन विवरणी में अंकित नहीं पाया गया। बकाया वेतन, बकाया मँहगाई भत्ता आदि को वित्तीय वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के आयकर विवरणी में सम्मिलित नहीं किये जाने के कारण आयकर मद में रू0 43268.00 के राजस्व की क्षति हुयी हैं। पूर्ण विवरण परिशिष्ट 'च' पर संलग्न हैं।

उल्लेखनीय है कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी श्रोत पर से आयकर कटौती करने के लिये आयकर अधिनियम 1961 की धारा 203 के अनुसार पूर्ण रूप से जिम्मेवार होते हैं। लेकिन निकासी एवं व्ययन द्वारा नियमों की उपेक्षा के कारण रू0 43268.00 के राजस्व की क्षति हुई हैं।

अतः प्रशासी विभाग के उच्चाधिकारी का ध्यान विशेषरूप से आकृष्ट किया जाता है कि आयकर अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार सम्बन्धित पदाधिकारी/कर्मचारी पर आवश्यक कारवाई की जाय एवं की गयी कारवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

(9) भू-लगान की बकाया राशि रू0 1199.15 नहीं वसूलने से राजस्व की हानि :-

लगान रसीद वही एवं पंजी-2 के मिलान एवं सत्यापन में पाया गया कि हल्का न0-6 के रैयत श्री नथुनीसिंह पिता श्री रामचन्द्र सिंह थाना न0- 523 जमावंदी न0-635 मौजा रायपुर विनगाँवा पर वर्ष 2010-11 तक रू0 60.40 प्रतिवर्ष की दर से 29 वर्षों के लिये रू0 1751.65 बकाया था। उक्त बकाया राशि में से रसीद सं0 -3121672 दिनांक 18.08.10 द्वारा रू0 552.50 प्राप्त किया गया था। शेष राशि रू0 1199.15 (रू0 1751.65(-) 552.50) पंजी -2 पर बकाया के रूप में अंकित पाया गया।

पुनः वर्ष 2013-14 में रसीद सं० 137825 दिनांक 29.9.2013 द्वारा अगले 3 वर्षों के लिये रू० 60.40 की दर से रू० 181.20 प्राप्त किया गया था। किन्तु पूर्व की बकाया राशि रू० 1199.15 छोड़ दिया गया। इस प्रकार रू० 1199.15 को छोड़कर अद्यतन रसीद निर्गत कर दिया गया। राशि छोड़ देने के कारण राजस्व की हानि हुई हैं। जिसे वसूल कर एवं नियमानुकूल पंजियों में प्रविष्टि कर कोषागार में उचित शीर्ष अर्न्तगत पया किया जमा एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

(10) बकाया वेतन मद में भुगतान की गयी राशि रू० 1876420.00 आपत्तिअर्न्तगत :-

शीर्ष 2029 के वेतन भुगतान पंजी वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के जाँच में पाया गया कि कार्यालय के विभिन्न कर्मचारियों को विभिन्न विपत्रों के द्वारा विभिन्न तिथियों को बकाया वेतन मद में रू० 1876420.00 का भुगतान किया गया था। भुगतान की गयी राशि की जाँच हेतु सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन विवरणी की माँग कार्यालय से लिखित एवं मौखिक रूप से की गयी, लेकिन कार्यालय द्वारा बकाया वेतन विवरणी प्रस्तुत नहीं किया गया। बकाया वेतन विवरणी के अभाव में भुगतीत राशि रू० 1876420.00 के व्यय/भुगतान की औचित्यता की जाँच नहीं की जा सकी। अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक निर्गत आपत्ति का अनुपालन भी नहीं किया गया। भुगतान राशि रू० 1876420.00 का विवरणी निम्नवत् हैं।

क्र० सं०	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम, पदनाम	विपत्र सं०	भुगतान तिथि	राशि	अभ्युक्ति
1	श्री जगदीश राम रा०	66/10-11	10.03.2011	69900.00	
	कर्म०	69/10-11	21.03.2011	33960.00	

		70 / 10-11	21.03.2011	95779.00	
2	मो० मोइनुद्दीन खाँ प्रधान लिपिक वगैरह कुल 7 व्यक्तियों को भुगतान	77 / 10-11	31.03.2011	135735.00	
3	श्री सुरेश राम रा० कर्म०	20 / 11-12	18.06.2011	71854.00	
4	मो० मोइनुद्दीन खाँ प्रधान लिपिक वगैरह कुल 10 व्यक्तियों को भुगतान	21 / 11-12	18.06.2011	141950.00	
5	श्री रधुनन्दन प्रसाद श्रीवास्तव रा० कर्म०	27 / 11-12	12.7.2011	223671.00	
6	श्री जगदीश राम एवं श्री रधुनन्दन प्रसाद श्रीवास्वत रा० कर्म०	28 / 11-12	14.07.2011	578855.00	
7	श्री रधुनन्दन प्र० श्रीवास्वत रा० कर्म०	29 / 11-12	12.07.2011	14034.00	
8	श्री अर्शफी साह रा०	50 / 11-12	30.10.2011	166699.00	

	कर्म०	57 / 11-12	13.12.2011	314916.00	
		56 / 11-12	13.12.2011	29067.00	
			कुल योग -	1876420.00	

प्रशासी विभाग के उच्चाधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि बकाया वेतन मद में भुगतान की गयी राशि रू० 1876420.00 के व्यय/भुगतान के औचित्यता की जाँच अपने स्तर से की जाय तथा इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को दी जाय। तबतक उक्त राशि रू० 1876420.00 के भुगतान को आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

(11) रू० 246947.72 कोषागार में जमा करने योग्य :-

विभिन्न सहायक रोकड़ पंजी वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के जाँच में पाया गया कि रू० 246947.72 अव्यवहृत राशि काफी दिनों से संवरण शेष के रूप में चला आ रहा है। जिसे कोषागार में विहित शीर्ष अन्तर्गत जमा कर दिया जाना चाहिये था। बिना व्यय योग्य राशि को सरकारी कोष में रखना बिहार कोषागार नियमावली भाग-1 के नियम 300 के प्रतिकूल है। दिनांक 31.3.12 के संवरण शेष में अंकित पूर्ण विवरण निम्नवत् हैं।

क्र० सं०	शीर्ष	संवरण शेष के रूप में लंबित राशि की अवधि	राशि
1	2235 शीतलहर	24.09.07 से अद्यतन्	743.79
2	2225 गृहस्थल	29.3.88 से अद्यतन्	17480.00

3	2015 निर्वाचन	12.4.96 से अद्ययतन	10684.50
4	0515 / 2015 प0 निर्वाचन	20.03.07 से अद्ययतन	217.00
5	265 विविध	20.03.07 से अद्ययतन	11.00
6	चरवाहा विद्यालय	24.09.07 से अद्ययतन	84070.00
7	स्व0 पो0 योजना	20.12.95 से अद्ययतन	3974.00
8	314 सामुदायिक विकास	26.01.99 से अद्ययतन	13687.70
9	2506 अधिशेष भूमि	12.05.92 से अद्ययतन	44170.00
10	5475 जमींदारी नकद भुगतान	1.3.94 से अद्ययतन	5703.87
11	0405 मत्सय	21.02.92 से अद्ययतन	3315.35
12	6401 नया अग्रिम	13.06.97 से अद्ययतन	22465.50
13	2029 भू- राजस्व	25.11.08 से अद्ययतन	23914.56
14	2055 पुलिस	02.01.2006 से अद्ययतन	16510.35

अतः कुल राशि रू0 246747.72 को अविलम्ब कोषागार उचित शीर्ष अन्तर्गत जमा कर इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को दी जाय।

(12) विविध मद में प्राप्त राशि रू0 33883.00 कोषागार में जमा करने योग्य :-

विभिन्न नाजीर रसीद एवं सहायक रोकड़ पंजी शीर्ष 0029 भू राजस्व वर्ष 2011-12 के मिलान में पाया गया कि विभिन्न नाजिर रसीदों द्वारा विविध मद में कुल रू0 44458.00 की प्राप्ति हुई थी। जिसे कोषागार में जमा की जानी चाहिये थी। किन्तु उक्त रकम में से विभिन्न चालानों से रू0 10575.00 ही जमा पाया गया। इस प्रकार कुल रू0 33883.00 (44458-10575) कम जमा किया पाया गया। पूर्ण विवरण निम्नवत् हैं।

131887	1.10.11	विविध	2191.00
131896	3.10.11	"	2161.00
131897	3.10.11	"	4248.00
131929	11.1.12	"	1975.00
131931	23.01.12	"	33883.00
			44458.00

8600 11 / 29.11.11 133546.00

1975 18 / 12.3.12 107975.00

10575.00 33883.00

उपर्युक्त विवरणी के आलोक में कम जमा राशि रू0 33883.00 यथाशीघ्र कोषागार में जमाकर अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाए।

भाग-3

(13) माँग एवं संग्रहण विवरणी का ठीक ढंग से संधारण नहीं किया जाना :-

अंचल कार्यालय छपरा सदर के वित्तीय वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 तक के माँग एवं संग्रहण विवरणी के अवलोकन में पाया गया कि (1) वित्तीय वर्ष 2010-11 में सभी मदों का बकाया राजस्व राशि रु0 820624.87 था एवं इतनी ही राशि वर्ष 2011-12 में प्रारम्भण शेष के रूप में दिखायी जानी थी, किन्तु वर्ष 2011-12 में पूर्व के बकाया के प्रारम्भण शेष के रूप में रु0 995893.48 अंकित पाया गया । इस प्रकार प्रारम्भण शेष के रूप में रु0 175868.61 (रु0 995893=48 (-) रु0 820624=87) अधिक दिखाया गया ।

(ii) माँग एवं संग्रहण विवरणी वर्ष 2011-12 में लगान शीर्ष मद में पूर्व का बकाया माँग रु0 19926.80 दिखाया गया था एवं बकाया माँग के विरुद्ध रु0 31852.00 का संग्रहण दिखाया गया था। इस प्रकार लगान शीर्ष में पूर्व का बकाया माँग के विरुद्ध रु0 11925.20 (रु0 31852.00 (-) रु0 19926.80) का अधिक संग्रहण दिखाया गया था ।

(iii) वित्तीय वर्ष 2011-12 में सभी शीर्षों का कुल बकाया माँग का योग रु0 - 2528244.39 था, के विरुद्ध रु0 1041666.00 का संग्रह किया गया था। इस प्रकार रु0 1486578.39 (रु0 2528244.39 (-) रु0 1041666.00) का संवरण शेष बचना चाहिये था जबकि संवरण शेष के रूप में रु0 1498655.23 दिखाया गया। इस प्रकार रु0 12076.84 (रु0 1498655.23 (-) रु0 1486578.39) का अधिक संवरण शेष दिखाया गया ।

उपरोक्त तथ्यों एवं आकड़ों से ऐसा प्रतीत होता है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में माँग एवं संग्रहण से सम्बन्धित विवरणी तथ्यों से परे काल्पनिक एवं भ्रामक हैं। अतः प्रशासी विभाग का ध्यान आकृष्ट करते हुये सलाह दी जाती है कि माँग एवं संग्रहण

विवरणी का सही ढंग से प्रेषण करने हेतु अधीनस्थ कार्यालयों को आवश्यक दिशा निदेश जारी करें।

(14) रू0 1000000.00 की कोषागार से अनावश्यक निकासी भविष्य में नहीं किये जाने का सुझाव :-

अंचल कार्यालय छपरा सदर को वित्तीय वर्ष 2010-11 में शीर्ष 2245 सहाय्य अन्तर्गत समाहरणालय छपरा से रू0 16342800.00 का आवंटन प्राप्त हुआ था। आवंटन के विरुद्ध 11185000.00 का निकासी किया गया था। रू0 10185000.00 का व्यय विभिन्न अभिश्रवों के माध्यम से किया गया था। शेष राशि रू0 5157800.00 का प्रत्यापण किया गया था एवं रू0 1000000.00 को चलान सं0 17 दिनांक 27.03.11 द्वारा कोषागार में जमा किया गया था जिसे सम्बन्धित रोकड़ पंजी के व्यय पक्ष में दिखाया गया था। इस प्रकार बिना आवश्यकता के राशि रू0 1000000.00 को कोषागार से निकासी कर अपने पास रखना बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 300 के प्रतिकूल हैं।

अतः सुझाव दिया जाता है कि कोषागार से उतनी ही राशि की निकासी की जाय जितनी राशि की आवश्यकता हों।

(15) अग्रिम पंजी का संधारण ठीक ढंग से नहीं किया जाना :-

अंचल कार्यालय के अग्रिम पंजी के अवलोकन में पाया गया कि विभिन्न कर्मचारियों को विभिन्न तिथियों को आपदा से प्रभावित व्यक्तियों के बीच राशि वितरण हेतु अग्रिम दिया गया था। अग्रिम देते समय राशि को अग्रिम पंजी में जोड़ दिया गया था, किन्तु कर्मचारियों द्वारा राशि वितरित नहीं किये जाने पर अग्रिम की राशि कार्यालय को वापस किया गया था। राशि वापस किये जाने पर उक्त राशि को अग्रिम पंजी से घटाया जाना चाहिये था। किन्तु

राशि को अग्रिम पंजी से नहीं घटाकर उपर ही उपर दूसरे कर्मचारी को हस्तगत करा दिया गया था, जो अनुचित हैं।

कार्यालय का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि भविष्य में सभी अग्रिम का भुगतान एवं अग्रिम की वापसी अग्रिम पंजी के माध्यम से ही किया जाय।

Dr. J. K. Singh
7/10/16

उप लेखा नियंत्रक
वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना।

मिलान एवं शुद्धिकर्ता का नाम एवं पदनाम

- (1) मो० ओबैदुल्लाह जावेद, व० अ०-2
- (2)

परिशिष्ट "क"

कंडिका "1'ट' से संबंधित

प्रस्तुत /अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :-

प्रस्तुत अभिलेख :-

1. विपत्र पंजी 2010-11 एवं 2011-12
2. सामान्य रोकड़ पंजी 2010-11 एवं 2011-12
3. रेमिटेन्स पंजी
4. सहायक रोकड़ पंजी
 - (i) शीर्ष 2029, 0029 भू राजस्व
 - (ii) शीर्ष 2055 ग्रामीण पुलिस
 - (iii) शीर्ष 2245 सहाय्य
 - (iv) शीर्ष 2071 पेंशन
 - (v) शीर्ष 314 सामुदायिक विकास
 - (vi) शीर्ष 2225 गृहस्थल
 - (vii) शीर्ष 5475 जमींदारी नकद भुगतान
 - (viii) शीर्ष 0405 मतस्य
 - (ix) शीर्ष 215 निर्वाचन
 - (x) शीर्ष 265 विविध
 - (xi) शीर्ष 2235 शीतलहर
 - (xii) शीर्ष 2506 अधिशेष कृषि
 - (xiii) शीर्ष - स्व0 यो0 योजना
 - (xiv) शीर्ष 6401 नया अग्रिम
 - (xv) शीर्ष - चरवाहा विद्यालय
 - (xvi) शीर्ष 0515 प0 चुनाव
5. आकस्मिकता पंजी
6. विभिन्न हल्कों का शुल्क संग्रहण पंजी
7. लगान रसीद की कार्यालय प्रति
8. नाजीर रसीद की कार्यालय प्रति
9. शीर्ष 2029 एवं 2055 के वेतन भुगतान पंजी
10. विभिन्न शीर्षों का अभिश्रव एवं रक्षी संचिकाये

11. कर्मचारियों का सेवा पुस्त आंशिक
12. अग्रिम प्राप्ति पंजी आंशिक
13. सैरात पंजी
14. अग्रिम पंजी
15. बैंक पास बुक एस0 बी0 आई0 खाता सं0 – 39021
16. बैंक स्टेटमेन्ट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया खाता सं0 – 393901010011016

अप्रस्तुत अभिलेख :-

1. गाड़ी का लॉग बुक
2. बकाया वेतन विवरणी राशि 1876420.00
3. यात्रा भत्ता की कार्यालय प्रति

परिशिष्ट 'ख' कंडिका 2(4) से संबंधित

शीर्ष 2029 का आवंटन व्यय विवरणी वर्ष 2010-11

क्र० सं०	मद	आवंटन	व्यय	अधिक व्यय	बचत राशि	प्रत्यार्पित राशि	पत्रांक / दिनांक	अभ्युक्ति
1	वेतनादि	9850000.00	9836970.00	—	13030.00	13030.00		प्रत्यार्पण पत्र अनुपालन
2	यात्रा भत्ता	9000.00	410.00	—	8590.00	8590.00		"
3	कार्यालय व्यय	8000.00	7999.00	—	01.00	01.00		"
4	वाहन ईंधन एवं रखरखाव	33000.00	32983.00	—	17.00	17.00		"
5	वर्दी भत्ता	2000.00	—	—	2000.00	2000.00		"
6	असमायोजित अभिश्रव	274893.00	47167.00	—	227726.00	227726.00		"

शीर्ष 2029 का आवंटन व्यय विवरणी वर्ष 2011-12

क्र० सं०	मद	आवंटन	व्यय	अधिक व्यय	बचत राशि	प्रत्यार्पित राशि	पत्रांक /दिनांक	अभ्युक्ति
1	वेतन	6562991.00	6552663.00	—	10328.00	10328.00		प्रत्यार्पण पत्र अनुपालन
2	यात्रा भत्ता	10000.00	—	—	10000.00	10000.00		"
3	कार्यालय व्यय	18000.00	18000.00	—	—	—		"
4	वाहन ईंधन एवं रखरखाव	35000.00	28507.00	—	6493.00	6493.00		"
5	वर्दी	5000.00	4950.00	—	50.00	50.00		"

शीर्ष 2055 का आवंटन व्यय विवरणी वर्ष 2010-11

क्र० सं०	मद	आवंटन	व्यय	अधिक व्यय	बचत राशि	प्रत्यार्पित राशि	पत्रांक / दिनांक	अभ्युक्ति
1	वेतन	6041200.00	5999720.00	—	41480.00	41480.00		प्रत्यार्पण पत्र अनुपालन

शीर्ष 2055 का आवंटन व्यय विवरणी वर्ष 2011-12

क्र० सं०	मद	आवंटन	व्यय	अधिक व्यय	बचत राशि	प्रत्यार्पित राशि	पत्रांक / दिनांक	अभ्युक्ति
1	वेतन	6779935.00	6408266.00	—	371669.00	371669.00		प्रत्यार्पण पत्र अनुपालन

शीर्ष 2245 का आवंटन व्यय विवरणी वर्ष 2010-11

क्र० सं०	मद	आवंटन	व्यय	अधिक व्यय	बचत राशि	प्रत्यार्पित राशि	पत्रांक / दिनांक	अभ्युक्ति
1	सहाय्य	16342800.00	10185000.00	—	6157800. 00	5157800. 00		चालान सं०— 17/ 27.3.11 द्वारा 1000000. 00 कोषागार में जमा राशि रू० 5157800.00 के प्रत्यार्पण से संबंधित पत्र अनुपलब्ध

शीर्ष 2245 का आवंटन व्यय विवरणी वर्ष 2011-12

क्र० सं०	मद	आवंटन	व्यय	अधिक व्यय	बचत राशि	प्रत्यार्पित राशि	पत्रांक / दिनांक	अभ्युक्ति
1	सहाय्य	3525000.00	3425000.00	—	100000.00	100000.00		प्रत्यार्पण पत्र अनुपालन

परिशिष्ट 'ग' कंडिका 3(4)

अंचल कार्यालय सदर छपरा के वर्ष 2010-2011 की माँग एवं संग्रहण विवरणी :-

क्र०	माँग की प्रकृति	वित्तीय वर्ष 2010-11 की माँग			संग्रहण			शेष			अभ्युक्ति
		बकाया एवं का बकाया	वर्तमान वर्ष	योग	बकाया	वर्तमान वर्ष	योग	बकाया	वर्तमान वर्ष	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	लगान	86224.00	200481.90	286705.90	86224.00	180556.00	266780.00	—	19925.90	19925.90	
2	शेष	90366.00	149565.42	239931.42	90366.00	3454.00	93820.00	—	146111.42	146111.42	
3	शिक्षा सेस	196838.00	298734.16	495572.42	100205.00	94535.00	194740.00	96633.26	204199.16	300832.42	
4	स्वा० सेस	195202.00	298734.16	493936.16	100205.00	94535.00	194740.00	94997.00	204199.16	299196.16	
5	कृषि कर	47215.00	90405.97	137620.97	47215.00	35847.00	83062.00		54558.97	54588.97	
6	ब्याज	—	—	—	—	—	—	—	—		
7	योग	615845.26	1037921.61	1653766.87		408927.00	833142.00	191630.26	628994.61	820624.87	
8	सैरात एवं विविध	—	30989.00 2800.00	30989.00 2800.00		30989.00 2800.00	30989.00 2800.00				
9	सफल योग	615845.26	1071710.61	1687555.87	424215.00	442716.00	866931.00	191630.26	628994.61	820624.87	49.62%

अंचल कार्यालय सदर छपरा के वर्ष 2011-2012 की माँग एवं संग्रहण विवरणी :-

क्र०	माँग की प्रकृति	वित्तीय वर्ष 2010-11 की माँग			संग्रहण			शेष			अभ्युक्ति
		बकाया एवं ... का बकाया	वर्तमान वर्ष	योग	बकाया	वर्तमान वर्ष	योग	बकाया	वर्तमान वर्ष	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	लगान	19926.80	289351.76	309278.56	31852.00	289504.00	321356.00	—	—	—	
2	शेष	146111.84	238435.28	384547.12	6351.00	107296.00	113647.00	139760.84	131139.28	270900.12	
3	शिक्षा सेस	476098.58	387604.02	863702.60	8491.00	215804.00	224295.00	467607.58	171800.02	639707.60	
4	स्वा० सेस	299196.32	387604.02	686800.34	8491.00	215804.00	224295.00	290705.32	171800.02	462505.34	
5	कृषि कर	54559.94	179275.83	233835.77	4665.00	103328.00	107993.00	49894.94	75947.83	125842.77	
6	ब्याज	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	योग	995893.48	1482270.91	2478164.39	—	931736.00	991586.00	947968.68	550687.15	1498655.83	
8	सैरात एवं विविध	—	27605.00 22475.00	27605.00 22475.00		27605.00 22475.00	27605.00 22475.00				
9	सकल योग	995893.48	1532350.91	2528244.39	59850.00	981816.00	1041666.00	947968.68	550687.15	1498655.23	41.20%

परिशिष्ट 'घ' कंडिका 3(5)

अंचल कार्यालय सदर, छपरा

सैरात एवं अन्य से प्राप्त राशि की आय की विवरणी :-

क्र० सं०	वर्ष	कुल संग्रहण	कोषागार में जमा	अभ्युक्ति
1	2010-11	33789.00	33789.00	
2	2011-12	72063.00	38180.00	233883.00 कोषागार में जमा नहीं किया गया।

परिशिष्ट 'ड' कंडिका -4 से संबंधित

अंचल कार्यालय छपरा सदर के स्वीकृत/कार्यरत बल की सूची

वर्ष 2010-11 एवं 2011-12

क्र० सं०	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त
1	अंचलाधिकारी	01	01	शून्य
2	अंचल निरीक्षक	01	01	शून्य
3	प्रधान लिपिक	01	01	शून्य
4	लिपिक	07	06	01
5	राजस्व कर्मचारी	13	09	04
6	अमीन	01	—	01
7	अनुसेवी	05	03	02
8	श्रम निरीक्षक	01	0	01
9	चौकीदार	60	33	27
10	दफादार	5	2	03
11	ड्राईवर	01	0	शून्य

परिशिष्ट 'च' कंडिका -8 से संबंधित

आयकर के रूप में कुल रु0 43268.00 की विवरणी :-

आयकर की गणना

(1) मो0 मोहैउद्धीन खाँ, प्रधान लिपिक वित्तीय वर्ष 2010-11 कर निर्धारण वर्ष 2011-12 वेतन विवरणी :-

वेतन	मँहगाई भत्ता	म0 कि0 भत्ता	स्वा0 भत्ता	योग	सा0 भ0 नि0	ग्रुप बीमा	80 सी की कुल राशि	आयकर (भुगतीत)
252880.00	100326.00	25288.00	2400.00	380894.00	30000.00	360	100000.00	9846.00

कार्यालय द्वारा कर निर्धारण की गणना का	वेतन विवरणी में छिपायी गई राशि विपत्र सं0 राशि	अंकेक्षण द्वारा का निर्धारण का विवरण (ख)	आयकर की क्षति (ख-क)	अभ्युक्ति
वेतन — 380894.00	73 / 10-11 — 8512.00	वेतन — 380894.00		
(-) म0 कि0 भ0 — 25288.00	77 / 10-11 — 24443.00	+ 32955.00		
355606.00	योग — 32955.00	कुल वेतन— 413849.00		
(-) 80(c) — 100000.00		(-) म0 कि0 भत्ता — 25288.00		
255606.00		388561.00		
(-) 160000.00		(-) 80 c 100000.00		
95606.00		288561.00		
या 95600.00		(-) 16000.00		
आयकर — 10%- 9560.00		128561.00		
अधिक भार — 3%- 286.00		आयकर 10% — 12856.00		
भुगतित आयकर — 9846.00		अधिक भार 3% — 386.00		
		कुल आयकर — 13242.00	3396.00	

(2) मो० मुस्ताक अहमद खाँ, राज० कर्म०, वित्तीय वर्ष 2010-11, कर निर्धारण वर्ष 2011-12 वेतन विवरणी :-

वेतन	मँहगाई भत्ता	म० कि० भत्ता	स्वा० भत्ता	योग	सा० भ० नि०	गुप बीमा	80 सी की कुल राशि	आयकर (भुगतीत)
255480.00	101354	12772	2400	372006	36000	360	36360	16089.00

कार्यालय द्वारा कर निर्धारण की गणना	वेतन विवरणी में छिपायी गई राशि विपत्र सं० राशि	अंकेक्षण द्वारा का निर्धारण का विवरण (ख)	आयकर की क्षति (ख-क)	अभ्युक्ति
वेतन- 372006.00	73/10-11 - 8600.00	वेतन - 372006.00		
(-) म० कि० भ० - 12772.00		+ 8600.00		
359284.00		कुल वेतन- 380606.00		
(-) 80(c) - 36360.00		(-) म० कि० भत्ता - 12772.00		
322924.00		367834.00		
या 322920.00		(-) 80 c 36360.00		
(-) 160000.00		331474.00		
162920.00		या 331470.00		
कर - 10%- 16290.00		(-) 160000.00		
होना चाहियें		171470.00		
लेकिन पाया गया कर		आयकर 10% - 17147.00		
10 %- 15620.00		अधिक भार 3% - 514.00	1572.00	
अधिभार 3% - 469.00		कुल आयकर - 17661.00		
आयकर - 16089.00				

(3) मो० सलाउद्धीन खाँ राज० कर्म० वित्तीय वर्ष 2010-11, कर निर्धारण वर्ष 2011-12 वेतन विवरणी :-

वेतन	मँहगाई भत्ता	म० कि० भत्ता	स्वा० भत्ता	योग	सा० भ० नि०	गुप बीमा	80 सी की कुल राशि	आयकर (भुगतीत)
201640.00	86778	20163	2400	310981	36000	360	94860	3704.00

कार्यालय द्वारा कर निर्धारण की गणना	वेतन विवरणी में छिपायी गई राशि विपत्र सं० राशि	अंकेक्षण द्वारा कर निर्धारण का विवरण (ख)	आयकर की क्षति (ख-क)	अभ्युक्ति
वेतन- 310981.00	77 / 10-11 - 18617.00	वेतन - 310981.00		
(-) म० कि० भ० - 20163.00		+ 18617.00		
290818.00		कुल वेतन- 329598.00		
(-) 80(c) - 94860.00		(-) म० कि० भत्ता - 20163.00		
195958.00		309435.00		
या 195960.00		(-) 80 c 94860.00		
(-) 160000.00		214574.00		
35960.00		(-) 160000.00		
कर - 10%- 3596.00		54575.00		
अधिभार 3% - 108.00		आयकर 10% - 5458.00		
कुल आयकर - 3704.00		अधिक भार 3% - 164.00		
		कुल आयकर - 5622.00	1918.00	

(4) श्री अर्जून माँझी राज0 कर्म0 वित्तीय वर्ष 2010-11 कर निर्धारण वर्ष 2011-12 वेतन विवरणी :-

वेतन	मँहगाई भत्ता	म0 कि0 भत्ता	स्वा0 भत्ता	योग	सा0 भ0 नि0	ग्रुप बीमा	80 सी की कुल राशि	आयकर (भुगतीत)
205390.00	81501	10297	2400	299588	24000	360	87402	4315.00

कार्यालय द्वारा कर निर्धारण की गणना	वेतन विवरणी में छिपायी गई राशि विपन्न सं0 राशि	अंकेक्षण द्वारा का निर्धारण का विवरण (ख)	आयकर की क्षति (ख-क)	अभ्युक्ति
वेतन- 299588.00	73 / 10-11 -6916.00	वेतन - 299588.00		
(-) म0 कि0 भ0 - 10297.00		+ 6916.00		
289291.00		कुल वेतन- 306504.00		
(-) 80(c) - 87402.00		(-) म0 कि0 भत्ता - 10297.00		
201889.00		296207.00		
(-) 160000.00		(-) 80 c 87402.00		
41889.00		208805.00		
कर - 10%- 4189.00		(-) 160000.00		
अधिभार 3% - 126.00		48805.00		
आयकर - 4315.00		या 48810.00		
		आयकर 10% - 4881.00		
		अधिक भार 3% - 146.00		
		कुल आयकर - 5027.00	712.00	

(5) श्री विनय कुमार सिंह राज0 कर्म0 वित्तीय वर्ष 2010-11 कर निर्धारण वर्ष 2011-12 वेतन विवरणी :-

वेतन	मँहगाई भत्ता	म0 कि0 भत्ता	स्वा0 भत्ता	योग	सा0 भ0 नि0	ग्रुप बीमा	80 सी की कुल राशि	आयकर (भुगतीत)
209360	90108	20935	2400	322803	24000	360	234608	4213

कार्यालय द्वारा कर निर्धारण की गणना	वेतन विवरणी में छिपायी गई राशि विपत्र सं0 राशि	अंकेक्षण द्वारा का निर्धारण का विवरण (ख)	आयकर की क्षति (ख-क)	अभ्युक्ति
वेतन- 322803.00	77 / 10-11 - 19348.00	वेतन - 322803.00		
(-) म0 कि0 भ0 - 20935.00		+ 19348.00		
301868.00		कुल वेतन- 342151.00		
(-) 80(c) - 100000.00		(-) म0 कि0 भत्ता - 20935.00		
201868.00		321216.00		
(-) 160000.00		(-) 80 c 100000.00		
41868.00		221216.00		
कर - 10%- 4187.00		(-) 160000.00		
अधिभार 3% - 126.00		61216.00		
4213.00		या 61220.00		
		आयकर 10% - 6122.00		
		अधिक भार 3% - 184.00	2093.00	
		कुल आयकर - 6306.00		

(6) श्री कुमार केसरी, लिपिक, वित्तीय वर्ष 2010-11 कर निर्धारण वर्ष 2011-12 वेतन विवरणी :-

वेतन	मँहगाई भत्ता	म0 भत्ता	कि0	स्वा0 भत्ता	योग	सा0 भ0 नि0	ग्रुप बीमा	80 सी की कुल राशि	आयकर (भुगतीत)
156360.00	67294	15636		2400	241690	30000	360	66360	शून्य

कार्यालय द्वारा कर निर्धारण की गणना	वेतन विवरणी में छिपायी गई राशि विपत्र सं0 राशि	अंकेक्षण द्वारा का निर्धारण का विवरण (ख)	आयकर की क्षति (ख-क)	अभ्युक्ति
वेतन-(क) 241690.00	77 / 10-11 - 13668.00	वेतन - 241690.00		
(-) म0 कि0 भ0 - 15636.00		+ 13668.00		
226054.00		कुल वेतन- 255358.00		
(-) 80(c) - 66360.00		(-) म0 कि0 भत्ता - 15636.00		
159694.00		239722.00		
(-) 160000.00		(-) 80 c 66360.00		
आयकर - शून्य		173362.00		
		(-) 160000.00		
		13362.00		
		आयकर 10% - 1336.00		
		अधिक भार 3% - 40.00		
		कुल आयकर - 1376.00	1376.00	

(7) श्री प्रकाश कुमार सिंह, लिपिक, वित्तीय वर्ष 2010-11 कर निर्धारण वर्ष 2011-12 वेतन विवरणी :-

वेतन	मँहगाई भत्ता	म0 कि0 भत्ता	स्वा0 भत्ता	योग	सा0 म0 नि0	ग्रुप बीमा	80 सी की कुल राशि	आयकर (भुगतीत)
207200.00	89456	20720	2200	319576	27500	330	142906	4002.00

कार्यालय द्वारा कर निर्धारण की गणना	वेतन विवरणी में छिपायी गई राशि विपत्र सं० राशि	अंकेक्षण द्वारा का निर्धारण का विवरण (ख)	आयकर की क्षति (ख-क)	अभ्युक्ति
वेतन — 319576.00	73 / 10-11 — 7824.00	वेतन — 319576.00		
(-) म0 कि0 म0 — 20720.00	72 / 10-11 — 34268.00	+ 66671.00		
298856.00	77 / 10-11 — 24579.00	कुल वेतन— 386247.00		
(-) 80(c) — 100000.00	योग — 6667.00	(-) म0 कि0 भत्ता — 20720.00		
198856.00		366527.00		
(-) 160000.00		(-) 80 c 100000.00		
38856.00		266527.00		
या — 38860.00		(-) 160000.00		
कर — 10%- 3886.00		105527.00		
अधिभार 3% — 117.00		या 105530.00		
आयकर — 4003.00		आयकर 10% — 10533.00		
आयकर भुगतान — 4002.00		अधिक भार 3% — 317.00	6868.00	
		कुल आयकर — 10870.00		

(8) श्री हरेन्द्र साह, राज0 कर्म0, वित्तीय वर्ष 2010-11 कर निर्धारण वर्ष 2011-12 वेतन विवरणी :-

वेतन	मँहगाई भत्ता	म0 कि0 भत्ता	स्वा0 भत्ता	योग	सा0 भ0 नि0	ग्रुप बीमा	80 जी की कुल राशि	आयकर (भुगतीत)
194040.00	80432	9695	2400	286567	24000	360	34000	शून्य

कार्यालय द्वारा कर निर्धारण की गणना	वेतन विवरणी में छिपायी गई राशि विपत्र सं0 राशि	अंकेक्षण द्वारा का निर्धारण का विवरण (ख)	आयकर की क्षति (ख-क)	अभ्युक्ति
(क) वेतन— 286567.00	72 / 10-11 -27691.00	वेतन — 286567.00		
(-) म0 कि0 भ0 — 9695.00		+ 27691.00		
276872.00		कुल वेतन— 314258.00		
(-) 80(c) — 100000.00		(-) म0 कि0 भत्ता — 9695.00		
176872.00		304563.00		
(-) 80(g) 17000.00		(-) 80 c 100000.00		
159872.00		204563.00		
(-) 160000.00		(-) 80(g) 17000.00		
शून्य		187563.00		
आयकर — शून्य		(-) 160000.00		
		27563.00		
		या 27560.00	2839.00	
		आयकर 10% — 2756.00		
		अधिक भार 3% — 83.00		
		कुल आयकर — 2839.00		

(9) श्री चुन्नी लाल साह, लिपिक, वित्तीय वर्ष 2010-11 कर निर्धारण वर्ष 2011-12 वेतन विवरणी :-

वेतन	मँहगाई भत्ता	म० कि० भत्ता	स्वा० भत्ता	योग	सा० भ० नि०	गुप बीमा	80 सी की कुल राशि	आयकर (भुगतीत)
209360.00	90108	20995	2400	322863	36000	360	105824	4313.00

कार्यालय द्वारा कर निर्धारण की गणना	वेतन विवरणी में छिपायी गई राशि विपत्र सं० राशि	अंकेक्षण द्वारा का निर्धारण का विवरण (ख)	आयकर की क्षति (ख-क)	अभ्युक्ति
(क) वेतन — 322863.00	77 / 10-11 — 24307.00	वेतन — 322863.00		
(-) म० कि० भ० — 20995.00		+ 24307.00		
301868.00		कुल वेतन— 347170.00		
(-) 80(c) — 100000.00		(-) म० कि० भत्ता — 20995.00		
201868.00		326175.00		
(-) 80(g) 160000.00		(-) 80 c 100000.00		
41868.00		226175.00		
या — 41870.00		(-) 160000.00		
आयकर 10% — 4187.00		66175.00		
अधिक भार 3% — 126.00		या 66180.00		
आयकर — 4313.00		आयकर 10% — 6618.00		
		अधिक भार 3% — 199.00	2504.00	
		कुल आयकर — 6817.00		

(10) श्री हरि चौधरी, राज0 कर्म0 , वित्तीय वर्ष 2010-11 कर निर्धारण वर्ष 2011-12 वेतन विवरणी :-

वेतन	मँहगाई भत्ता	म0 कि0 भत्ता	स्वा0 भत्ता	योग	सा0 भ0 नि0	ग्रुप बीमा	80 सी की कुल राशि	आयकर (भुगतीत)
203200	87456	10209	2400	303265	24000	360	80954	5306.00

कार्यालय द्वारा कर निर्धारण की गणना	वेतन विवरणी में छिपायी गई राशि विपत्र सं0 राशि	अंकेक्षण द्वारा का निर्धारण का विवरण (ख)	आयकर की क्षति (ख-क)	अभ्युक्ति
(क) वेतन- 303265.00		वेतन - 303265.00		
(-) म0 कि0 भ0 - 10209.00		म0 कि0 भ0 + 10209.00		
293056.00		कुल वेतन- 293056.00		
(-) 80(c) - 80954.00		(-) 80 c 80954.00		
212102.00		212102.00		
(-) 80(g) 160000.00		(-) 160000.00		
52102.00		52102.00		
या - 52100.00		या 52100.00		
आयकर 10% - 5210.00		आयकर 10% - 5210.00		
अधिक भार 3% - 156.00		अधिक भार 3% - 156.00		
आयकर - 5306.00		कुल आयकर - 5366.00		
			60.00	

(11) मो० मोहैउद्धीन खाँ, प्रधान लिपिक, वित्तीय वर्ष 2011-12 कर निर्धारण वर्ष 2012-13 वेतन विवरणी :-

वेतन	मँहगाई भत्ता	म० कि० भत्ता	स्वा० भत्ता	योग	सा० भ० नि०	ग्रुप बीमा	80 सी	80 जी की कुल राशि	आयकर (भुगतीत)
260480.00	140003	26048	2400	428931	30000	360	120360	100000	7498.00

कार्यालय द्वारा कर निर्धारण की गणना	वेतन विवरणी में छिपायी गई राशि विपत्र सं० राशि	अंकेक्षण द्वारा का निर्धारण का विवरण (ख)	आयकर की क्षति (ख-क)	अभ्युक्ति
(क) वेतन— 428931.00	21 / 11-12 — 18966.00	वेतन — 428931.00		सा० भ० नि० में
(-) म० कि० भ० — 26048.00	96 / 11-12 — 7675.00	+ 26641.00		वेतन विवरणी के
402883.00	26641.00	— 455572.00		अनुसार कटौती
(-) 80(c) — 100000.00		(-) म० कि० भत्ता — 26048.00		मात्र 30000.00
302883.00		429524.00		पाया गया
(-) 80(g) 50000.00		(-) 80 c 30360.00		जबकि अनुसूची
252883.00		399164.00		—II में 120000.
(-) कर मुक्त आय — 180000.00		(-) 80(g) 50000.00		00 दर्शाया गया
72883.00		349164.00		था 80 जी में
या 72880.00		या 349160.00		रु० 100000.00
आयकर 10% — 7280.00		(-) का मुक्त आय — 180000.00		की रसीद नहीं
अधिक भार 3% — 218.00		169160.00		पायी गयी।
आयकर — 7498.00		आयकर 10% — 16916.00	9925.00	
(पाया गया जबकि 7288.00 होना चाहिये था।)		अधिक भार 3% — 507.00		
		आयकर — 17423.00		

(11) श्री हरेन्द्र साह, राजस्व कर्मचारी वित्तीय वर्ष 2011-12 कर निर्धारण वर्ष 2012-13 वेतन विवरणी :-

वेतन	मँहगाई भत्ता	म0 भत्ता	कि0	स्वा0 भत्ता	योग	सा0 भ0 नि0	ग्रुप बीमा	80 सी	80 जी की कुल राशि	आयकर (भुगतीत)
199880	103944	9994		2400	316169	24000	360	100000	54000 / -	

कार्यालय द्वारा कर निर्धारण की गणना	वेतन विवरणी में छिपायी गई राशि विपत्र सं० राशि	अंकेक्षण द्वारा का निर्धारण का विवरण (ख)	आयकर की क्षति (ख-क)	अभ्युक्ति
(क) वेतन- 316169.00	96 / 11-12 - 5890.00	वेतन - 316169.00		
(-) म0 कि0 भ0 - 9994.00		+ 5890.00		
306175.00		- 322059.00		
(-) 80(c) - 100000.00		(-) म0 कि0 भत्ता - 9994.00		
206175.00		312065.00		
(-) 80(g) 27000.00		(-) 80 c 100000.00		
179170.00		212065.00		
(-) कर मुक्त आय - 180000.00		(-) 80(g) 27000.00		
शून्य		185065.00		
		या 185070.00		
		(-) का मुक्त आय - 180000.00		
		5070.00		
		आयकर 10% - 507.00	522.00	
		अधिक भार 3% - 15.00		
		आयकर - 522.00		

(13) श्री ओम कृष्णा प्रसाद, राजस्व कर्मचारी, वित्तीय वर्ष 2011-12 कर निर्धारण वर्ष 2012-13 वेतन विवरणी :-

वेतन	मँहगाई भत्ता	म0 कि0 भत्ता	स्वा0 भत्ता	योग	सा0 भ0 नि0	गुप बीमा	80 सी
219836.00	105728	10780	2400	338744	24000	360	120466

कार्यालय द्वारा कर निर्धारण की गणना	वेतन विवरणी में छिपायी गई राशि विपत्र सं0 राशि	अंकेक्षण द्वारा का निर्धारण का विवरण (ख)	आयकर की क्षति (ख-क)	अभ्युक्ति
(क) वेतन- 338744.00	96 / 11-12 - 5940.00	वेतन - 338744.00		
(-) म0 कि0 भ0 - 10780.00		+ 5940.00		
327964.00		कुल वेतन- 344684.00		
(-) 80(c) - 100000.00		(-) म0 कि0 भत्ता - 10780.00		
227964.00		333814.00		
(-) कर मुक्त आय - 180000.00		(-) 80 c 100000.00		
47964.00		233814.00		
या 47960.00		(-) का मुक्त आय - 180000.00		
आयकर 10% - 4796.00		53814.00		
अधिक भार 3% - 144.00		या - 53810.00		
आयकर - 4940.00		आयकर 10% - 5381.00		
		अधिक भार 3% - 161.00		
		आयकर - 5542.00	602.00	

(14) श्री सुरेश राम, राजस्व कर्मचारी, वित्तीय वर्ष 2011-12 कर निर्धारण वर्ष 2012-13 वेतन विवरणी :-

वेतन	मँहगाई भत्ता	म० कि० भत्ता	स्वा० भत्ता	योग	सा० भ० नि०	ग्रुप बीमा	80 सी की कुल राशि
215680.00	112114	10788	2400	340982		360	100000.00

कार्यालय द्वारा कर निर्धारण की गणना	वेतन विवरणी में छिपायी गई राशि विपत्र सं० राशि	अंकेक्षण द्वारा का निर्धारण का विवरण (ख)	आयकर की क्षति (ख-क)	अभ्युक्ति
(क) वेतन- 340982.00	20 / 11-12 -71854.00	वेतन - 340982.00		
(-) म० कि० भ० - 10788.00	96 / 11-12 - 6350.00	+ 78204.00		
330194.00	78204.00	कुल वेतन- 419186.00		
(-) 80(c) - 100000.00		(-) म० कि० भत्ता - 10788.00		
230194.00		408398.00		
(-) कर मुक्त आय - 180000.00		(-) 80 c 100000.00		
50194.00		308398.00		
या 50194.00		(-) का मुक्त आय - 180000.00		
आयकर 10% - 5019.00		128398.00		
अधिक भार 3% - 151.00		या - 128400.00		
आयकर - 5070.00		आयकर 10% - 12840.00		
		अधिक भार 3% - 385.00		
		कुल आयकर - 13225.00	8155.00	

(15) श्री प्रकाश कुमार सिंह, लिपिक, वित्तीय वर्ष 2011-12 कर निर्धारण वर्ष 2012-13 वेतन विवरणी :-

वेतन	मँहगाई भत्ता	म0 भत्ता	कि0	स्वा0 भत्ता	योग	सा0 भ0 नि0	ग्रुप बीमा	80 सी की कुल राशि	आयकर (भुगतीत)
263337	124002	23944		2400	413683	30000	360	100000.00	

कार्यालय द्वारा कर निर्धारण की गणना	वेतन विवरणी में छिपायी गई राशि विपत्र सं0 राशि	अंकेक्षण द्वारा का निर्धारण का विवरण	आयकर की क्षति	अभ्युक्ति
(क) वेतन- 413683.00	96 / 11-12 -7050.00	(ख) वेतन - 413683.00	(ख-क)	
(-) म0 कि0 भ0 - 23944.00		+ 7050.00		
389739.00		कुल वेतन- 420733.00		
(-) 80(c) - 100000.00		(-) म0 कि0 भत्ता - 23944.00		
289739.00		396789.00		
(-) कर मुक्त आय - 180000.00		(-) 80 c 100000.00		
109739.00		296789.00		
या 109740.00		(-) का मुक्त आय - 180000.00		
आयकर 10% - 10974.00		116789.00		
अधिक भार 3% - 329.00		या - 116790.00		
आयकर - 11303.00		आयकर 10% - 11679.00		
		अधिक भार 3% - 350.00		
		कुल आयकर - 12029.00	726.00	

सारांश

क्रमांक - 1 - 3396.00

क्रमांक - 2 - 1572.00

क्रमांक - 3 - 1918.00

क्रमांक - 4 - 712.00

क्रमांक - 5 - 2093.00

क्रमांक - 6 - 1376.00

क्रमांक - 7 - 6868.00

क्रमांक - 8 - 2839.00

क्रमांक - 9 - 2504.00

क्रमांक - 10 - 60.00

क्रमांक - 11 - 9925.00

क्रमांक - 12 - 522.00

क्रमांक - 13 - 602.00

क्रमांक - 14 - 8155.00

क्रमांक - 15 - 726.00

कुल योग - 43268.00